



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1422]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2006/अग्रहायण 7, 1928

No. 1422]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2006/AGRAHAYANA 7, 1928

## कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2006

का.आ. 2035(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकारों के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

## सारणी

क्रम सं.	प्रकार	किस्म
(1)	(2)	(3)
1.	लौकी	पंत लौकी-3 (पीबीओजी-61)
2.	लौकी	पंत करेला-2 (पीबीआईजी-1)
3.	मटर	आजाद पी-5 (केएस-245)
4.	लौकी	पंत शंकर लौकी-2
5.	ककड़ी	पंत खीरा-1
6.	अजवाइन (बिशप बीड)	पंत रूचिका

(1)	(2)	(3)
7.	टमाटर	अर्क मद्याली
8.	प्याज	अर्क पीतंबर
9.	प्याज	अर्क बिन्दु
10.	भिन्डी	अर्क अनामिका (आईआईएचआर-10)
11.	भिन्डी	अर्क अभय (आईआईएचआर-4)
12.	मिर्च	अर्क लोहित
13.	लोबिया	अर्क सुमन
14.	रिज गार्ड	अर्क सुजत
15.	चौलाई	अर्क सुगुना
16.	बैंगन	फूले हरित (आरएचआरबी-16)
17.	डालीकस बीन	फूले गौरी (आरएचआरडब्ल्यूएल-1)
18.	केला	बीआरएस-1
19.	केला	बीआरएस-2
20.	अजवाइन (बिशप बीड)	पंत रूचिका
21.	ग्रेटर यम	कांकण गोरखंड
22.	आम	पूसा सूर्या
23.	आम	पूसा अरुणिमा (एच-13-1)
24.	ककड़ी	स्वर्ण अगेती
25.	रिज गार्ड	स्वर्ण मंजरी
26.	टमाटर	स्वर्ण नवीन
27.	टमाटर	स्वर्ण लालिमा

(1)	(2)	(3)
28.	बैंगन	स्वर्ण श्यामली
29.	बैंगन	स्वर्ण श्री
30.	कंकड़ी	स्वर्ण शीतल
31.	रिज गार्ड	स्वर्ण उपहार
32.	प्वाइन्टेड गार्ड	स्वर्ण रेखा
33.	प्वाइन्टेड गार्ड	स्वर्ण अलौकिक
34.	प्याज	एनएचआरडीएफ आरईडी (एल-28)
35.	भिन्डी	हिसार नवीन (एचआरबी 107-4)
36.	भिन्डी	काशी लीला (आईआईवीआर-11)
37.	लोबिया	स्वर्ण सुफला (सीएचसीपी-2)
38.	गार्डन पी	स्वर्ण मुक्ति (सीएचपी-2)
39.	डोलीकस बीन	स्वर्ण उत्कृष्ट (सीएचडीबी-1)
40.	फ्रेंच बीन	काशी पुरम (आईवीएफबी-1)
41.	टमाटर	स्वर्ण सम्पदा (एचएटीएच-3)
42.	बैंगन	स्वर्ण अजय (एचएबीएच-3)
43.	बैंगन	काशी संदेश (वीआरबीएचआर-1)
44.	खरबूज	काशी मधु (आईवीएमएम-3)
45.	मिर्च	काशी सुख (सीसीएच-2)
46.	ऐश गार्ड	काशी उज्जवल (आईवीएजी-90)
47.	टमाटर	मणि लीमा
48.	गाजर	शालीमार कैरट-1 (एसकेएयू-सी-50)
49.	मिर्च	अर्क मेघना (एमएसएच-172)
50.	लोबिया	अर्क समृद्धि (आईआईएचआर-16)
51.	फ्रेंच बीन	अर्क सुविधा (आईआईएचआर-909)
52.	गार्डन पी	अर्क अजित (एफसी-1)
53.	बैंगन	अर्क केशव (आईआईआरएच-21)
54.	बैंगन	अर्क निधि (आईआईआरएच-12)
55.	कुन्डू	इन्दिरा कुन्डू-35
56.	कुन्डू	इन्दिरा कुन्डू-05
57.	जीरा	गुजरात जीरा-4 (जीसी-4)
58.	फिनेल	गुजरात फिनेल-11 (जीएफ-11)
59.	ग्रेटर यम	उड़ीसा इलाईट

[सं. 17-12/2006-एसडी-IV]

एस. एल. भट, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**(Department of Agriculture and Co-operation)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2006

**S.O. 2035(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :—

**TABLE**

Sl. No.	Kind	Variety
(1)	(2)	(3)
1.	Bottle gourd	Pant Lauki-3 (PBOG-61)
2.	Bitter gourd	Pant Karela-2 (PBIG-1)
3.	Pea	Azad P-5 (KS-245)
4.	Bottle gourd	Pant Sankar Lauki-2
5.	Cucumber	Pant Khira-1
6.	Ajaiwan (Bishop's weed)	Pant Ruchika
7.	Tomato	Arka Maghali
8.	Onion	Arka Pitambar
9.	Onion	Arka Bindu
10.	Bhendi	Arka Anamika (IIHR-10)
11.	Bhendi	Arka Abhay (IIHR-4)
12.	Chilli	Arka Lohit
13.	Cowpea	Arka Suman
14.	Ridge Gourd	Arka Sujat
15.	Amaranthus	Arka Suguna
16.	Brinjal	Phule Harit (RHRB-16)
17.	Dolichos Bean	Phule Gauri (RHRWL-1)
18.	Banana	BRS-1
19.	Banana	BRS-2
20.	Ajaiwan (Bishop's weed)	Azad Ajaiwan-1
21.	Greater Yam	Konkan Ghorkand
22.	Mango	Pusa Surya
23.	Mango	Pusa Arunima (H-13-1)
24.	Cucumber	Swarna Ageti
25.	Ridge Gourd	Swarna Manjari

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
26. Tomato	Swarna Naveen		45. Chilli		Kashi Surkh (CCH-2)
27. Tomato	Swarna Lalima		46. Ash Gourd		Kashi Ujwal (IVAG-90)
28. Brinjal	Swarna Shyamli		47. Tomato		Mani Leima
29. Brinjal	Swarna Shree		48. Carrot		Shalimar Carrot-1 (SKAU-C-50)
30. Cucumber	Swarna Sheetal		49. Chilli		Arka Meghana (MSH-172)
31. Ridge Gourd	Swarna Uphar		50. Cowpea		Arka Samrudhi (IIHR-16)
32. Pointed Gourd	Swarna Rekha		51. French Bean		Arka Suvidha (IIHR-909)
33. Pointed Gourd	Swarna Alaukik		52. Garden pea		Arka Ajit (FC-1)
34. Onion	NHRDFRED (L-28)		53. Brinjal		Arka Keshav (IIHR-21)
35. Bhendi	Hisar Naveen (HRB 107-4)		54. Brinjal		Arka Nidhi (IIHR-12)
36. Bhendi	Kashi Lila (IIVR-11)		55. Ivy gourd		Indira Kundru-35
37. Cowpea	Swarna Suphala (CHCP-2)		56. Ivy gourd		Indira Kundru-05
38. Garden Pea	Swarna Mukti (CHP-2)		57. Cumin		Gujarat Cumin-4 (GC-4)
39. Dolichos Bean	Swarna Utkrisht (CHDB-1)		58. Fennel		Gujarat Fennel-11 (GF-11)
40. French Bean	Kashi Puram (IVFB-1)		59. Greater yam		Orissa elite
41. Tomato	Swarna Sampada (HA TH-3)				
42. Brinjal	Swarna Ajay (HABH-3)				
43. Brinjal	Kashi Sandesh (VRBHR-1)				
44. Musk melon	Kashi Madhu (IVMM-3)				

[No. 17-12/2006-SD-IV]  
S. L. BHAT, Jt. Secy.